

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 328]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 29 जुलाई 2019—श्रावण 7, शक 1941

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 29 जुलाई 2019

क्र. एफ 2-06-2019-एक (1)-646.—चूंकि, राष्ट्रपति ने श्री लाल जी टंडन, को अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा मध्यप्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया है. अतः इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि श्री लाल जी टंडन ने आज दिनांक 29 जुलाई, 2019 को पूर्वान्ह में विहित शपथ ले ली है एवं अपना पद ग्रहण कर लिया है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुधि रंजन मोहन्ती, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 29 जुलाई 2019

क्र. एफ. 2-06-2019-एक (1)-647.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-06-2019-एक (1)-646, दिनांक 29 जुलाई 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुधि रंजन मोहन्ती, मुख्य सचिव.

Bhopal, the 29th July 2019

No. F. 2-06-2019-one (1)-646.—WHEREAS, the President has been pleased by warrant under his hand and seal to appoint Shri Lal Ji Tandon, to be the Governor of Madhya Pradesh, it is hereby notified that Shri Lal Ji Tandon has in the forenoon of the 29th day of July, 2019 taken the prescribed Oath and has entered upon the duties of his office.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SUDHI RANJAN MOHANTY, Chief Secretary.

655